



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1935 (श0)

(सं0 पटना 748) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2013

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

8 जुलाई 2013

सं0 634—श्री राम लक्ष्मण जानकी जी वो हनुमान जी वो शंकर जी मंदिर ग्राम+पो0+थाना—करगहर, जिला—रोहतास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0— 4092/10 है । पर्षद में चल रहे इस न्यास से संबंधित वाद में उभय पक्षों की सुनवाई के पश्चात इस न्यास को मा0 अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, विद्यापति मार्ग, पटना ने आदेश दिनांक 12/04/2012 द्वारा अधिनियम की धारा—28 (2) (प) के तहत इसे सार्वजनिक न्यास घोषित किया । तत्पश्चात इस न्यास की सुव्यवस्था, संचालन एवं सम्यक विकास के लिए अंचलाधिकारी, रोहतास से पर्षदीय पत्रांक 1128, दिनांक 03/09/2012 द्वारा कमिटी गठन हेतु ग्यारह व्यक्तियों का नाम की मांग की गयी थी । इस पत्र के अनुपालन में अंचलाधिकारी, रोहतास ने पत्रांक 339, दिनांक 23/03/2013 द्वारा ग्यारह सदस्यों के नामों (उनके पदनाम सहित) भेजा । इसी बीच श्री झुलन पाण्डेय, पिता— स्व0 विद्या पाण्डेय, ग्राम+पो0+थाना— करगहर, रोहतास द्वारा अंचलाधिकारी, रोहतास द्वारा भेजे गये नामों की सूची में क्रमांक—2 में वर्णित (श्री रजनी कांत पाण्डेय) के नाम पर आपत्ति की । श्री पाण्डेय के आवेदन के आलोक में मा0 अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ने अंचलाधिकारी, रोहतास द्वारा भेजे गये नामों की सूची में से क्र0 सं0—2 एवं 3 को विलोपित करते हुए, शेष बचे हुए अन्य 9 नामों की कमिटी गठन करने हेतु आदेश दिया ।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा— 32 के अन्तर्गत मैं धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम लक्ष्मण जानकी जी वो हनुमान जी वो शंकर जी मंदिर ग्राम+पो0+थाना—करगहर, जिला—रोहतास के सुचारु प्रबंध, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है ।

योजना

1. अधिनियम की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राम लक्ष्मण जानकी जी वो हनुमान जी वो शंकर जी मंदिर ग्राम+पो0+थाना— करगहर, जिला— रोहतास” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री राम लक्ष्मण जानकी जी वो हनुमान जी वो शंकर जी मंदिर ग्राम+पो0+थाना—करगहर, जिला—रोहतास” जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा ।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा ।
  3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा ।
  4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा ।
  5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी ।
  6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी ।
  7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।
  8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।
  9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।
  10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।
  11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती है:-

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1. श्री चन्द्रशेखर, अंचलाधिकारी, करगहर, रोहतास                  | — | पदेन अध्यक्ष |
| 2. श्री झुलन पाण्डेय पिता— स्व० विद्या पाण्डेय, करगहर           | — | सचिव         |
| 3. श्री रामायण राम पिता— स्व० देवनाथ राम, करगहर                 | — | सदस्य        |
| 4. श्री श्री लक्ष्मण मिश्रा पिता— स्व० जय गोविन्द मिश्रा, करगहर | — | पुजारी       |
| 5. श्री मंगल चौधरी पिता— स्व० छटु चौधरी, करगहर                  | — | सदस्य        |
| 6. श्री संतोष साह पिता— स्व० विहारी साह, करगहर                  | — | सदस्य        |
| 7. श्री काशी महतो पिता— स्व० सीता महतो, करगहर                   | — | सदस्य        |
| 8. श्री विन्ध्याचल चौरसिया पिता— स्व० विश्वनाथ पनेरी, करगहर     | — | सदस्य        |
| 9. श्री गोपाल जी पाण्डेय पिता— श्री बैद्यनाथ पाण्डेय, करगहर     | — | सदस्य        |
12. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

विश्वासभाजन,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 748-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>